



BLM Academy

Founded on 12th March 2011

*Celebrate
The Gift of Life*

The Founder of
BLM Academy



LATE VED PRAKASH GUPTA JI
(29th Feb. 1944- 06th Sep. 2014)

Filigree

News Letter
April, May & June
2016

**Our
Scholastic
Gems**

9 to 9.8 CGPA:

Ankur Nagila
Sarthak Joshi
Anurag Bhatt
Aryan Chaudhary
Aman Asgola
Mohit Chaudhary
Nirmal Sharma
Vijay Gupta
Kartik Jain
Harshita Pandey
Hemant Nahata

10 CGPA



EK AUR SAVERA

1st April 2016

The pious beginning with HAVANI!
May the darkness be dispelled by the holy flames of sacred fire!
May one more dawn lead us to the divine light of knowledge,
wisdom, courage and humility to make us nobler and better!

Enlightenment of each & every soul is to be ensured to establish peace on this planet & this responsibility rests on shoulders of parents & teachers. It needs strength courage & wisdom. May we be blessed enough to lead the children to enlightenment & thereby to peace! May Peace Prevail on Earth!
Mrs. Rajni Kanta Bisht Principal

विद्ययालव की प्रदानाचार्य श्रीमती रजनीकंता बिष्ट, उनके सहयोगियों व विद्यालय के विद्यार्थियों के परिश्रम की एक भावगी के रूप में यह पत्रिका 'फिलिग्री' सके सम्पने है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भाँति पुनीतियों को स्वीकार करने की उनकी आदत इस बार भी पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी सहयोगियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उत्तरोत्तर विकास की आशा के साथ।
सखेत अग्रवाल प्रबन्धक

पॉच वर्ष की अल्पावधि में सुखद संज्ञुधि एवं शैक्षिक समृद्धि की.एल.एम. परिवार के अनवरत एवं उत्कृष्ट प्रयास का सुफल है। भविष्य में भी विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मेरी शुभकामनायें हैं।
श्रीमती आदेश अग्रवाल वैद्यपरसन

Dear Readers, The fancies, the fantasies and the feelings when fanned with fervour, the flavour that falls on the paper spreads its fragrance and turns out to be the feast to eyes, mind and soul. Filigree is one such work of Blmites. I hope Filigree will meet your expectations. Mrs. Usha Sharma Editor

ORIENTATION PROGRAMME *For New Parents*

To orient means to rise. Rise to know the art and science of parenting was the thought behind the Orientation Day on 9th April 2016. In addition, the new parents were introduced to the culture and spirit of BLM, by the Principal Mrs. Rajni Kanta Bisht. She emphasised on the need of counselling of the teachers and the parents both in order to bring transformation in children A.O. Ms. Savita Sharma enlightened the guardians about positive parenting which is very significant in the formative years of the child. Mr. Dharmesh Pandey proposed vote of thanks on behalf of **PERCEUS HOUSE**.



BAISAKHI IN BLM

Poyola Vaishakh in Bengal, Vishu in Kerala, Bihu in Assam, foundation day of Khalsa Panth in 1699 AD.

Baisakhi, originally a harvest festival permeated full vibrancy and merriment, the very essence of this festival in the atmosphere of BLM Academy on 13th April 2016, when the students with teachers witnessed live experience of harvesting at nearby fields. Farmers' blooming faces with the reward of rich crop invoked teachers and students to dance BHANGRA in unison depicting full energy and passion for the festival. **AQUILA HOUSE** organised the programme.



AMBEDKAR JAYANTI

14th April. On 125th birth anniversary of 'Bharat

Ratna' and Father of Constitution Baba Saheb Dr.

Bhimrao Ramji Ambedkar, students were apprised about the three vital elements of DEMOCRACY: JUSTICE, LIBERTY and EQUALITY. The Principal Mrs. Rajnikanta Bisht paid floral tribute to the leader who accomplished many emancipating works and drafted Indian Constitution.



THE WORLD EARTH DAY

22ND April, 2016

THE WORLD EARTH DAY celebration was an assertion by the students of BLM to preserve the bounties of Mother Earth.

Eco-guardians of Community Club in B.L.M. Academy presented a skit on cleanliness echoing green revolution to generate awareness about the threat to our planet, due to reckless exploitation of nature.

Angel Joshi, Niharika and Vedant of class IV presented speeches and poems. Group song "HEAL THE WORLD" stirred and thrilled all to hum together. Infotaining Quiz concluded the celebration.



INTERNATIONAL LABOUR DAY

1ST May 2016

CEPHEUS HOUSE conducted the International Labour Day morning assembly to uphold the dignity of labour which soaked the students with the feeling of respect and gratitude towards the community workers who relentlessly work for everyone. They too deserve dignified place in society.

A play by primary students with melodious song "Sathi Hath Badhana" was a befitting soulful tribute to all our helpers.



INTERNATIONAL RED CROSS DAY



8th May 2016

The birth anniversary of Jean Henry Dunant, the founder of RED CROSS SOCIETY and the first Nobel Laureate for Peace was observed this year on the theme "OUR FUTURE COMMITTED VOLUNTEERS". In an

endeavour to convey the importance of first aid, a skit on personal hygiene was presented.

Pratyush Bametha, class V A conducted a quiz on RED CROSS DAY.

Akriti Sharma, class V B made an impressive speech about voluntary work. Rishabh Singh, class IV recited a poem on RED CROSS.

Health and wellness club took the onus to celebrate the RED CROSS DAY.



NATIONAL TECHNOLOGY DAY

11th May 2016-07-06

Technology and its techniques save our time from unnecessary wandering and groping.

For the development of scientific temperament and believing the fact only after experimentation, Gaurav Lohumi of class IXth A, ORION HOUSE, anchored the programme which comprised of:

- ★ Self - composed poem on Technology by Ayushman Pandey of class X A.
- ★ An enriching conversation between Shumaila Rizvi and Shanta Kumari of IXA was an icing on the cake.
- ★ Techno-quest conducted by Gaurav Dhanik of class IX A, let the students explore technical talent.



'Jai Janani Divas'



14th MAY 2016

Can "Maa" the first word of the world find expression with pen and paper? Impossible! We can only make an attempt. Celebration of **Jai Janani Divas** by Heritage Club was one such gesture to honour mothers who bring life to this world and nurture the life in all forms with utmost care. The chief guest Mrs. Anjali Gupta (PCS) - District Provision officer, Chairperson Mrs. Adesh Agarwal, the Guests of Honour Mrs. Krishna Agarwal, Mrs. Radha Agarwal and the invited mothers graced the occasion with their presence and participation. Besides, the school provided mother's day cards to all the students for their mothers.

Attractions of the day with the achievers were:

MEHNDI LAGAO - Mrs. Pooja Agarwal, mother of Sarthak Agarwal of class XIth C.
AIPAN BANAO - Mrs. Deepa Belwal, mother of Rishabh Belwal of class X.
Meri Maa ki Mohini Moorat (Housie)-

- ★ Mrs. Jaya Rajpal, mother of Rishabh Rajpal of class Xth A1
- ★ Mrs. Neeti Agarwal, mother of Isha Agarwal of class Xth A.
- ★ Mrs. Bharti Latwal, mother of Tanuja Latwal of class Xth A.
- ★ KAVITABANAO - Mrs. Seema Tiwari, mother of Manas Tiwari of class XI A.
- ★ LEKH LEKHAN - Mrs. Lata Chaurasia, mother of Harshvardhan Chaurasia of class XIth A

Making Maximum Smilies on Balloon

- ★ Mrs. Saumya Agarwal, mother of Siddhant Agarwal of class Xth A.
- ★ Mrs. Jaya Rajpal, mother of Rishabh Rajpal of class Xth A.
- ★ Mrs. Deepa Belwal, mother of Rishabh Belwal of class X.

Fastest Safety Pin & Rubber Band Chain

- ★ Mrs. Geeta Rawat, mother of Shubham Rawat of XI A.
- ★ Mrs. Madhulika Devanshi, mother of Saumya Devanshi of class XIth C.
- ★ Mrs. Ritu Chaudhary, mother of Aryan Chaudhary of class XI.
- ★ All the achievements were acknowledged with gifts.
- ★ Dance teacher Mr. Raj Chauhan's efforts showcasing Mother's bonding with the child left all in tears.
- ★ Mrs. Sapna Sahni concluded the programme with vote of thanks.



INTERNATIONAL YOGA DIVAS 21st June 2016

B.L.M.'s reopening on 21st June after summer break coincides with summer solstice and International Yoga Divas. The whole staff and students rolled out their mats to be a part of the celebration of physical, mental and spiritual wellness on the occasion. Mr. N.V. Singh, retired I.F.S obliged us by teaching some easy and comfortable exercises to experience stress free life. It was really relieving and reviving.



HOLIDAY HOME-WORK Summer Holiday home-work corner was embellished with amazingly beautiful products of creativity and dedication by the students. Hats off to parents' expert tutelage!



An enthusiastic mother with holiday homework of her son.



Team work- Children's Day card production by teachers

29th June, 'Best out of waste', A workshop by Mrs. Diksha Joshi was a scrupulous endeavour to impart environmental consciousness. Besides, it reiterated the value of three 'R's. Teacher and students alike learnt novel ways to create T.L.M. and beneficial items with waste material.



"Twin Win's" **30th June** mentors Mr. Vaibhav Pandey and Anshul Vashishth guided the teachers for a guilt free life, with presentation on Owning the Organisation and Problem Solving.



Quality Education Asia's resource person Mrs. Usha Krishnan's workshop on **"Enquiry Base Learning"** opened new vistas for excellence in teaching.

Orientation Programme for Teachers

Besides, the teachers of school proved themselves a rich resource giving ppts on personal & professional excellence during 21st of June to 30th June 2016.




JUNIOR BUZZ

PRE-PRIMARY ACTIVITIES

"Body is the soul's prison unless the five senses are fully developed and open" – William Blake

Let us break the prison open with opportunities to explore, create and flourish. BLM believes in development of all 9 intelligences to harness the hidden talents.





YELLOW PARTY

Nutritional Fiesta, the **YELLOW PARTY** provided pleasurable moments to the tiny tots.



बादल आए बादल छाप

हिमांशु, कल्पना, मेधा जोशी IVA

गर्मी से अब जी घबराए,
काले बादल मन को भाएँ,
उमड़-धुमड़कर बिजली चमकाए,
रिमझिम-रिमझिम जल बरसाएँ,
बूंदे तन-मन को हरसाएँ,
नाचे मोर, दिल बहलाए,
मेढ़क टर्-टर् करें

रात भर डराएँ,
बच्चे नाचें-कूदें गाएँ,
कागज की वे नाव चलाएँ,
मम्मी गरम पकौड़े बनाएँ,
पापा रेनकोट छता लाए,
पेड़-पौधे झूमें लहराएँ,
घरती माँ की प्यास बुझाएँ



'डर के आगे जीत है'

सिद्धि पाण्डेय VA

मेरा नाम है तो सिद्धि पर मैं थी बड़ी डरपोक! अन्धेरा होने पर मैं घर की छत पर तो क्या घर के आस-पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। २७ मई की रात है अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। हवा और पानी की लोड़ ने तूफान मचा दिया। ऐसे माहौल में बिजली तो अक्सर चुपचाप खिसक ही लेती है। चीजें सम्मालते हुए मुझे विल्ली के दो बच्चे याद आए जो छत पर ही रह गए थे। मैंने दादी और मम्मी से उन्हें लाने को कहा तो दोनों बोली- 'चिन्ता मत कर जानवर अपनी रखा खुद कर लेते हैं।' परन्तु मुझे तो उनकी सहमी-सी आँखें, स्कूल से लौटने पर दौड़ कर आना और म्याऊँ-म्याऊँ कर मुझसे लिपटना आदि यादें चैन नहीं लेने दे रही थी। उन बच्चों के प्रति प्यार और फिक्र ने मेरे कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा दिए और मैं छत पर लकड़ियों के बीच छिपे बच्चों को नीचे स्टोर रूम में ले आई। उस मयानक रात मैं भी बच्चों को बचाने की चिन्ता के सामने अन्धेरे का भय न जाने कहाँ डर कर भाग गया। इस अनुभव के बाद मुझे डर नहीं लगता सच ही है कि डर के आगे जीत होती है।

पिटू-दिवस पर समर्पित

नैतिक अप्रवाल VC

सेर को जा रहा था मैं,
एक बार पापा के साथ,
सड़क पार करने में दिल घबराया,
पापा ने तुरंत हाथ बढ़ाया।
डरता क्यों है मेरी उंगली पकड़,
सोचा मैंने, नन्हें हाथ से उंगली जायेगी सरक।
'पापा आप पकड़ें मेरा हाथ।'
'मैं पकड़ूँ या तू पकड़े,
क्या है फर्क?'
मुझे है पूरा विश्वास,
'पापा आप तो कभी न छोड़ेंगे मेरा हाथ।'



A Day Before Summer Vacation

Naman Agarwal VIA1



A day before summer vacation.
It is full of joy and lots of action.
It gave me both happiness and confusion.
Confusion to choose where to go.
Confusion to play or watch a cartoon show.
Confusion to finish the homework at hand.
Or quench the thirst of enjoying the movie with friend.
But the vacations are full of joy.
Playing whole day with friends and toy.
Now vacations are ending.
The lode of work is descending.
Bye bye vacations come again.
Let me go to school again.



RAIN!

Kanak Chandola, IV B

Rain is so welcoming and so pleasant,
The whole life is its dependent.
After a long journey of heat and evaporation,
Small drops of water freeze due to condensation.
All eyes looking up with both hands folded,
The farmers, the creatures and grains yet to be fielded.
Prayers become louder and clearer,
For rain to come down thick and deeper.
The clouds burst with lots of fun,
Children and deer jump high as they can.
Drops clean and revive the dry leaves,
Mosquitoes scold all for full sleeves.
It is the most productive season as all say,
May our earth be full of water we all pray.



SELF HELP

Prakhar Pant VII A

Self help is the best help. It is the root of all success. A self reliant person doesn't depend upon others for accomplishing his work. The spirit of self help cultivates good quality of hand, head and heart in us. A self helper is not only industrious, but has courage and strength of mind and faces difficulties boldly to overcomes them as a Hero. God always helps those who help themselves

तो गर्मी की छुट्टी आई

कनक गुला VIA

गर्मी आई गर्मी आई
खरबूजा, तरबूज लाई।
तीची, आइ और खुमाना
मीठा शरबत ठंडा पानी।
टप-टप-टप-टप बड़े
पसीना
भापे सूती कुरता दोला।
मम्मी ने लस्सी बनाई
ठंडाई भी खूब थोड़ाई।
तपती धरती तपता तन,
बिजली बिन अस्त-व्यस्त
जीवना।

मेरा उत्तराखण्ड

अरवि खुरार VII B

हम उस माटी के बने हैं
जहाँ देवता रहते हैं।
इसलिए मेरी मातृभूमि को
देवभूमि भी कहते हैं।
गंगा, यमुना बहती जिसमें,
ऊँचा जिसका हिमालय हो,
नमन है ऐसी मातृभूमि को,
जहाँ केदार सा शिवालया हो।
जहाँ दोल, दमाऊ और हुड़का,
आज भी बनाए जाते हैं।
जहाँ तीलू रौतेली और
मालुशाली
के गीत आज भी गाए जाते
हैं।
जहाँ हर पर्यट की चोटी पर
आज भी देवता विद्याए जाते

अप्रतिम तकनीक

अनुष्मणन पान्डे X A

यह बात है उस काल की
तकनीक के घमाल की
न्यूटन और आइंस्टाइन के आविष्कार की
इस्वर को मानव-जाति के लिए चमत्कार की।
सोचो मेरे मित्रगण,
अगर न होते ये स्मार्ट बोर्ड,
तो पढ़ता हम पर कितना लोड।
और अगर न होते ए. सी. और फैन,
तो दूटते प्रतिदिन गर्मी के रिफार्ड।
हम धन्य हैं उन देव पुत्रों के
जिन्होंने हमें बरदान दिलाया।



हैं।
जहाँ भट्ट की सुटकाणी,
दाल गहत की बड़े चाव से
खाते हैं।
अल्मोड़ा की बाल मिठाई,
सिंगौड़ी आज भी सभी और
मंगाई जाती हैं।
जहाँ घर-घर में गाय और
तुलसी
आज भी पूजी जाती हैं।
यही तो मेरा उत्तराखण्ड है
यहाँ की सादगी और सुन्दरता
सबके मन को भाती है
देश-विदेश से भी
पर्यटकों को खींच लाती है।



INSPIRATIONS FROM NATURE.....

Sakshi Sharma IX A1

Nature, the storehouse of all ideas and mother of all inspirational resource has inspired poets, painters, musicians and even scientists for centuries. The beauty, the wisdom and the ingenuity that inspired these distinguished people to create master pieces are available to each one of us too. One of the most inspiring phenomena in nature is the transformation of a caterpillar into a butterfly. Through the transformation of a tiny insect that once crawled to a brilliantly colored creature that can fly, nature gently unfolds the message: Good things comes to those who wait, and this inspires us to persevere and accomplish which leads us to success.

मेरी माँ

हर्षिता भट्ट VII A2

जिसने मुझको जन्म दिया
पाल-पोस कर बड़ा किया
उसके जैसी बनूँ मैं कैसे
मैं हूँ बच्ची यह है मेरी माँ
जिसके बिन मैं रह न पाऊँ,
अपने को अधूरा-सा पाऊँ।
जिसका चाहूँ हरदम साथ,
सर पर रहे सदा उनका हाथ।
चाहती हूँ मैं उनको इतना,
पूरा कर पाऊँ उनका हर सपना।
कहना माँ, दूँ उन्हें प्यार,
कुछ तो मैं भी करूँ दुलार।
माँ ही से है यह समस्त संसार,
बच्चों पर सब देती वार।
आओ करें उनका सम्मान,
धरती पर है वही भगवान।



आओ मिलकर पेड़ लगाएँ

वरखा जोशी VIII A1

एक-एक यदि पेड़ लगाएँ,
करोड़ों पेड़ धार आएँ,
धरती हरी-भरी हो जाए,
असम्प्य रोग भी दूर हो जाएँ।
शीतल मन्द बवार चले,
निर्मल जल की धारा बहे,
सालच ने मानव को उकसाया,
पेड़ों से मित्रता समझ न पाया।
कुलाड़ी मूल जाती है वार,
पर पेड़ रखता है उसे याद,
क्योंकि उसमें होती है जान,
परमार्थ ही है उसकी शान,
आओ करें उसका सम्मान।

The Ocean of love

Nishkarsh Kandpal VIII A2

Mother's day reminds me of my mum;
And those feelings I want to express some.
Mom you are the ocean of love,
Always try to make us superb.
You are the sweetest gift of God,
To a child, who needs you the most.
You go hungry to make us strong,
And always wish us a life very long.
You are our first teacher
You are our great preacher
To make us humane and kind creature
For our better and bright future.
You happily bear up all the pain
Just for the sake of our small gain.
Matchless and priceless is the love of mother
Please God, bless every child with mother.

BEING THE DAUGHTER OF A TEACHER MOM

Reetika Joshi VIII A



" Hey Reetika don't break the queue"
" Go to your class"
" Yes mom"
Oh no " Yes mam"
She observes my gait
Wherever I go , whatever I do ,
I must be at work without any wait.
During recess ,
Her eyes around me hovered and zoomed .
Till I'am seated in my room.
She remains always watchful ,
So am I very careful.
At home ,
Left or right she keeps me very tight
" That was wrong , Yes of course this

one is right " .
Always she passes on lot of commands ,
Without expecting any demands.
" Have you , " She asks , " finished homework " ?
" Yes mom I have " .
" Good " ,
Now its time for fitness- work ,
Be it cycling or swimming ,
I'm warned ,
To be careful without any slipping.
" Its over " , she tells.
In a little louder voice –
" Your milk and snacks are on the table ,

Finish the whole ,
Reducing the quantity is non-negotiable.
" Yes , mam " .
She stares at me with the question mark .
" Oh ! I forgot , "
" Yes , mom " .
It is night by now ,
And before I sleep ,
She embraces me with love.
I feel wow !!!
She's a teacher , competent and a mother caring ,
I am her daughter darling and proud of her rearing.

CAN MONEY BUY HAPPINESS?

Keerti Adhikari and Richa Singh IX A



Yes! It's correct to some extent that money buys you happiness. Happiness does not depend on how much income a person has. It depends on how he spends his money. Happiness is not all about saving money for future,

developing a stingy kind of nature, dreaming of good future. It's all about enjoying the life without fear.

As smile is most important ingredient of happiness. It creates happiness in woe, fosters goodwill in business and is the countersign of friends. Happiness cannot be begged, brought, borrowed or stolen. Happiness cost nothing but creates much. Everybody is worrying about his future and wasting his/her present. Spending sometime with those who worry about you is also happiness. In today's society happiness means only giggling and smiling, but happiness means much more than that. Happiness can be derived from very simple things. We can derive joy from beauty, from nature, by giving to others, even by giving back, indeed, by giving away; by being thankful for small mercies too. Such simple and loving acts do not require money but positivity, large heartedness and spontaneity only.



FRIENDSHIP

Tanuja & Reshma XA1

Friendship is God's sweetest obligation,
It is the purest of all relations.

Regardless to age, status and time,

It occurs when two similar beating hearts combine.

True friend accepts a friend with all it's shortcomings,
And is always ready to help through thick and thin.

Mutual love and respect, arguments and fights,
Leg-pulling, teasing, -- so many silly things alike,

All these prepare for friends spicy recipe,

That's why in friends' company we are always happy.

Free from malice friend can die for friend with smile

Friendship is a green hill by the dusty road of life.



Wall Magazine April -May Child Prodiges of India



लड़कियाँ

शेफाली कान्दपाल X A2

एक लड़की थी, ससुराल चली गई
 कल की लड़की आज बहू बन गई
 कल तक मौज करती लड़की
 अब ससुराल की सेवा करना सीख गई
 कल तक तो ड्रेस और जींस पहनती लड़की
 आज साड़ी पहन संवरना सीख गई
 पीहर में बहती, निर्बाध नदी-सी
 आज ससुराल का नीर बन गई
 रोज मजे से पैसों में खेलती लड़की
 आज साग-सब्जी का भाव करना सीख गई
 कल तक Full Speed में स्कूटी दौड़ाती
 लड़की
 आज Bike के पीठे बैठना सीख गई
 कल तक विन्दास, मनमोजी लड़की
 आज सास से अनुमति लेना सीख गई
 हमेशा ज़िद करती लड़की
 आज पति से परामर्श करना सीख गई



एक श्रद्धांजलि

श्रिया महतोशिया XI Humanities

जिन्दगी भर सबको खुश किया,
 पैर में किसी के कौंदा भी न चुमने दिया,
 मेहनत से अपनी, आपने सबको हैरान किया,
 अन्त में आप ने हर एक को रुला दिया
 है ये जीवन का सच, हम मानते हैं,
 जाना सबको होता है, ये भी हम जानते हैं।
 दूर आप चले गए, पर पास सदा हो हमारे,
 सर पर हाथ रखे रहना, जो हम सबके प्यारे।
 आप जहाँ भी हो, हमें देखते रहना,
 अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना।
 रोके नहीं रुक रहे हम सभी के आँसू,
 आप कितना हँसाते थे हम सब को दादू,
 डाँट आप की कभी-कभी बहुत सताती थी,
 दुःख भी देती थी और बहुत रुलाती थी।
 आज आपको आवाज सुनने को कान तरस गए,
 दादा.....! आप क्यों चले गए?
 कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना,
 मन नहीं लगता, भटकता है यहाँ-वहाँ।
 रोज स्कूल से आकर फोन देखकर सोचती हूँ,
 अभी आपका फोन आएगा और पूछोगे, "हाँ
 पोपू पहुँच गई?"
 कहीं चले गए दादा आप, जहाँ न कोई फोन न
 कोई ऐड्रेस,
 क्यों अचानक हम सबको कर दिया आपने



My School Journey With BLM.....

Rachna Verma XII Science



कल तक तो मम्मी से काम करवाती लड़की
 आज नन्दन का मान करना सीख गई
 कल तक तो भाभी के साथ मजाक करती
 लड़की
 आज लेठानी का आदर करना सीख गई
 पिता की आँख का पानी
 ससुराल की मान मर्यादा के कलश का गंगाजल
 बन गई
 फिर भी लोग कहते हैं, मेरी बेटी वैसी-की
 वैसी ही रह गई
 भूल तकते हैं वे कि एक बेटी जीवन का सतीश्र
 सीख
 एक कुलवधु बन उनका नाम रोशन करना
 सीख रही है।

The first day in school,
 Eyes wet and frightened to enter...

With a question in mind,
 "Will I have friends and a good mentor?"
 The day passes with quietness inside,
 Trying to avoid the expression to come outside.

Everyone so busy with self and friends,
 "Will I find someone who like my trends?"
 Initially I found it like a prison of six hours,
 But slowly I began to see the beauty of some
 friendly flowers.

Now I had friends, may be not very true.
 But friends are friends for they add to you
 That masti and dhamal in the class,

I miss it all...alas!
 Those three years with BLM, I just blossomed,
 But now that time is gone which was just
 awesome....

Although that time has slipped, the bond lives
 within,

leaving a sweet hut of memories to live in.

And when the school journey's end is on the verge,
 To live it again, I have a deep urge....

I imagine how nimbly it passed away,
 Even before I could know,

In front of my eyes the finishing line lay.

The watery eyes of the first day reappear,
 But this time it is for the separation from peers

First days thought was,

"How would I live with them?"

And now "How would I live without them?"

All the friends will now go their own way,

I wish to meet them all again one day.

Those classroom cries and smiles so sweet,
 Its time to bid them with a goodbye greet.

How do I forget that lovely class, those corridors
 ,those galleries,

Those naughty boys and those sweet girl fairies...

Those teachers day celebrations and children's
 day's look

That sleepiness in class and making cartoons in
 books.

The dull school uniforms which we hated to wear,
 Will now on a sight bring us down to tears...

O BLM, those three years which I spent with you,
 Were really golden and very true.

O my school journey I miss you too much all my
 life,

Create an Era of Learning

Sarthak Joshi XI
Commerce



From last few years many things have changed and so, have changed the mind set of the students. In the present year students are running in a race of scoring marks. Scoring high marks is a matter of pride and it determines the intellect level of students. People now assume that scoring marks is the only way to make a good future.

There is a serious need to change this wrong notion, school and colleges were established to supply education to make people learn and to give them ability to discover, to create and to interpret. There is a serious need to understand that learning is important and scoring is a secondary part of education, but people have forgotten this fact.

Parents and teachers have created a world of extreme pressure for students which has marred the natural of process of learning. Few students fail to bear this pressure and take wrong steps. So now we have to think that is this what we want scores (marks) in place of life.

Have we ever thought that if marks were so important then how Sachin Tendulkar, Bill Gates and Shiv Khera were able to make a dignified position in this world.

Now its upon us to create a new era of learning where this world will be free from the chains of marks. Lets create such a beautiful environment where there exist knowledge, innovation, discoveries. Where student will study not to score but to achieve the ocean of knowledge.

Every one in this world is created with something special, there is only need to discover our special ability and work on it then there is no such force present in the world that can stop up from climbing the mountain of success. No great success ever came without great struggle. Just believe in your self and always remember you are unique and important to this world.

We are known because of the work we do for the society not for the marks which we gain for ourselves.

Literacy is not the end of education nor even it is the beginning.

"Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides us knowledge, knowledge make us wise and great."

Age of Extinction ...

Prashant Joshi XII 'A'
Science



We all have heard about Kung Fu and other 'Martial Art' stuff. But did you ever think, where these arts came from?

I feel pain, whenever I thought about old Indian culture and other form of art, once part of Indian culture and fests. All those things which our country gave us, we are leaving it back and only focusing towards development that too doesn't work well in our country.

We see traditional settled country like China on the apex to advancement, today Japan is the most advanced country, did you ever thought why, why not India?

The only reason I could find for this question is, that we are not developing our nation with taking our tradition with us, we are leaving them back, while others are not.

Kung Fu was actually a form of martial art elicited from a famous Indian 'Arts of Martial's' well known as 'Kalar' an art form originated from Kerala, India.

Long back around 5th or 6th century a master 'King Bodhidharma' who treated himself as the disciple of 'Gautama Buddha' created a well know form of art which today known as 'Eighteen Hands of Buddha', a sacred martial art which includes the 'Pachtatva' i.e. one who know this form can easily control anyone, even the term 'Hypnosis' is the major part of this art.

Later on his journey to China, he transmitted this art to the people of china and became the founder of 'Old Shaolin'.

Today everyone in India is well aware about superstar but no one knew our monks who actually created the foundation of India. If you go to the parts of China and Japan everyone must be knowing, who Bodhidharma was, on the other hand no Indian is aware of him. If Indians do have taken their 'Sanskritis' along their way to enhancement and achievements, India could have become the most developed nation, and not in the age of extinction.

BLM- A-Glance

The Human Resource

Students- 1235, Sections-42, The Custodians-168

Principal	1	Sports & Yoga Depts	6	Office Attendant	6
Administrative Staff	2	Sports Coach	4	Ayah	21
Office Staff	11	Music Dept	4	Gardner	4
Teaching Staff	54	Art & Craft Dept	2	Security Staff	7
Part Time Teacher	4	Dance Dept	2	Drivers	40
Total	72		18		78

OUR ATTITUDE DEFINES WHAT WE BELIEVE

Lata Nagarkoti XI Science



Yes, I'm somewhere very correct in saying that our attitude frames what we actually believe. Our attitude is what we own, what we earn and what we present. A person will only present what he thinks and gradually his thoughts cast his attitude. Different people present differently as they have different attitude towards life and aspects of life. A person is titled as egoistic if he thinks about himself only. Egocentric believes that he is the only person important in this world. An egomaniac represents possessiveness towards his desires and can be fatal for others.

All of them have different thoughts therefore, possess different attitude. All this leads them to be overconfident.

A person having positive attitude, an altruist one will always present others and oneself the best. He'll never get disappointed and never let others to get disappointed. He'll always believe in himself and God. His thoughts will make him confident as well as motivated. His positive approach will make him happy and successful. A person becomes great by his deeds and deeds are performed according to our attitude. Man often becomes the product of his beliefs.

If one believes that he can, no power can stop him but if he gives up no power of this world can make him achieve anything. Opportunities are many but it depends how our attitude is towards it.

An egoist can be successful but hardly owns happiness or internally may lead a woeful life. So, blessed are really those who believe in spreading possible positivity and always try to own positive approach towards every aspect of life.

The One Armed Judo Champion

Bhargav Bisht Class XII Humanities



A young boy who was born without a left arm was sent to Judo lessons by his mother in a bid to help with his confidence. So he began taking lessons with an old Japanese master.

Every practice session the master taught the boy one throw. Just one technique over and over again.

So often the one-armed boy would see the other students learning different techniques and ask the master why he wasn't learning anything else.

The master always replied – "Just focus on this one throw. Keep practicing"

Several months later, it was the state Judo championship and the old master made young boy's entry.

The young boy was terrified.

The first match began and the one-armed boy grabbed his opponent and to the shock of all the spectators – easily flipped him to the ground. Instant win!

The second round was a little harder but the one-armed boy again pulled off the technique – the only technique he knew, and won.

The third and fourth round amazingly went the same way and the young boy found himself in the tournament final facing a much bigger, stronger and tougher opponent, who had won the tournament for three straight years.

The young boy was overmatched it seemed. The referee and the organizers of the tournament spoke to the master and asked him if he wanted to withdraw his student.

"No" said the master. "We will fight".

As the final match began the entire crowd was on the edge of the seat. The opponent stepped and grabbed the young one-armed boy and pulled him towards him. For a second it looked as if it was all over...

But then the one armed boy reached with his right hand, stepped in and BOOM – he threw his opponent flat on his back, to win the match!


The crowd went nut – the one-armed boy was the state Judo Champion!

On the drive home, the young boy asked his teacher – "Was this a set-up? Did they just let me win because I only have one arm? I only know one technique – these guys know hundreds!"

The teacher replied "No – you won fair and square. But there are two reasons. You won because you mastered one of the most devastating techniques in Judo. And the only known way to defend against that throw is to grab the left arm!"

What appeared to be an incredible weakness – was in fact his greatest strength.

Picturise the Story



Results of Intra School Competitions 2016-17

April to May

See & Tell

1st	23-04-16	Class 1st & 2nd
1st	Bhasker Garia	1st B
1st	Shreya Singh	2nd C
1st	Vishwajeet Rawat	2nd C

How Useful I am

1st	23-04-16	Class 3rd to 5th
1st	Manya Agrawal	3rd C
1st	Kanishka Rautela	4th B
1st	Priyanjal Bhatt	5th A

Picturise your Name

1st	23-04-16	Class 6th to 12th
1st	Mansi Chupal	6th
1st	Shashwat Agarwal	7th
1st	Vridhii Agarwal	8th
1st	Arjita Bora	9th
1st	Priyanshu Bisht	10th
1st	Perna Bisht	11th
1st	Sapna Mehra	12th

Illustration of the Title

1st	23-04-16	Class 8th to 12th
1st	Jyoti Bora	VIII
1st	Babita Bisht	IX
1st	Priyanshu Bisht	X
1st	Somya Devyanshi	XI
1st	Aman Agarwal	XII

Origami

1st	14-05-16	Class 1st & 2nd
1st	Bhavya Bhauryal	1st A
1st	Parth Agarwal	2nd B

Picturise the Paragraph

1st	Rishika Agrawal	Class 3rd to 5th
1st	Yashwardhan Rawat	3rd A
1st	Suhani Sharma	4th A
		5th C


Wall Magazine

Child Prodigies of India, (Multi-Colour)

1st	Cepheus House
2nd	Orion House
3rd	Perseus House
4th	Aquila House

Extempore

1st	Shivani Dutta	Class 6 & 7
1st	Shashwat Agarwal	6 A
1st	Shreya Lohani	7 A
1st	Suraj Joshi	7 A1
		7 A2



KINESTHETIC EXCELLENCE YOGA CHAMPIONSHIP

Organised by Uttarakhand Yoga-Culture Association,
held at Shemford School; on 26-27 April, 2016.

ILLUSTRATIONS

Name of Student	Age Group	Award	
1. Shamsheer S. Siddhu	6-8	Gold	
2. Divyansh Kawatra	6-8	Silver	
1. Ayush Asgola	8-11	Gold	
2. Yogant Pant	8-11	Bronze	
1. Karan Rautela	11-15	Gold	
2. Tanuj Sanwal	11-15	Gold	
3. Priyanshu Bisht	11-15	Silver	
4. Yash Singh	11-15	Bronze	5th Place
5. Deep Sharma	11-15	Bronze	7th Place
1. Rohit Pandey	15-20	Gold	
2. Ayushman Pandey	15-20	Silver	
Girls			
1. Rishika Agarwal	6-8	Gold	
2. Nalini Mehra	6-8	Bronze	
3. Anushri Bahuguna	6-8	Bronze	4th Place
1. Riya Joshi	11-15	Gold	
2. Shreya Shukla	11-15	Bronze	
Artistic Yoga (Boys)			
1. Priyanshu Bisht	11-15	Gold	
2. Saurabh Fulara	11-15	Gold	
3. Tanuj Sanwal	11-15	Gold	
4. Uday Chaunal	11-15	Gold	
5. Siddhant Tripathi	11-15	Gold	
6. Rahul Pandey	11-15	Gold	
7. Deepanshu Kothari	11-15	Gold	
8. Nitesh Sharma	11-15	Gold	
9. Vijay Khali	11-15	Gold	
10. Rigved Negi	11-15	Gold	

Total Individual Gold - 07
Total Individual Silver - 03
Total Individual Bronze - 06
Artistic Yoga (Boys Group) - 10 Gold

SPORTS



Siddhant Agrawal (X) Kushagra Malkani (x)

Participated in State Level Cricket Tournament (under-16) organized by U.P.C.A., held at Dehradun and represented Nainital District. (3rd week of April 2016)




Kushagra Malkani (x)

Participated in Zonal Level Cricket Tournament (Under-16) organized by U.P.C.A., held at Meerut and represented Uttarakhand Zone. (Last week of April 2016)



Siddhant Agrawal (X) Sparsh Jain (IX) Arush Malkani (VI)

Participated in State Level Cricket Tournament (Under-15) organized by SAI & CBSE, held at Roorkee and represented Nainital District. (Last week of May 2016)



Contact- OFFICE-

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital) Uttarakhand (INDIA)

Ph.: 05946-232010, 7055515681

e-mail: blma.principal@gmail.com, Website: www.blmacademy.com